

BCom3663-Group-C : Banking and Insurance-Recent Trends in Banking and Insurance

P. Pages : 3



Time : Three Hours

GUG/W/16/5174

Max. Marks : 80

- Notes : 1. All questions are compulsory.
2. All questions carry equal marks.

1. a) Define banking law. State its importance. 8

b) State the types of banker's customers. 8

OR

c) Explain the concept of customers distinguish between general relationship and special relationship. 16

2. a) Define Bills of exchange. State the advantages of Bills of exchange. 8

b) Explain the types of cheque. 8

OR

c) Explain the concept of Promissory Notes. State the advantages and disadvantages of Promissory Notes. 16

3. a) Explain the importance of Health Insurance. 8

b) State the features of Personal Accident Insurance Policy. 8

OR

c) Define Health Insurance scheme. State the benefit of Health Insurance. 16

4. a) Describe the concept of bank assurance. 8

b) State the scope of bank assurance. 8

OR

c) Distinguish between Bank and Insurance company with few example. 16

5. Write short answer.

a) Types of Accounts. 4

b) Difference between Drawer & Drawee. 4

c) Features of long term Policy. 4

d) Future of Bank assurance in Insurance sector. 4

B.Com.(with Credits)-Regular-Semester 2012 Sem VI
BCom3663-Group-C : Banking and Insurance-Recent Trends in Banking and Insurance

Time : Three Hours

Max. Marks : 80

- सूचना :- 1. सर्व प्रश्न अनिवार्य आहेत.
 2. सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत.
1. अ) अधिकोष नियमनाची परिभाषा सांगा व त्याचे महत्व विशद करा. 8
- ब) अधिकोष ग्राहकांचे प्रकार विशद करा. 8
- क) अधिकोष ग्राहकांची संकल्पना स्पष्ट करा साधारण संबंध (General relationship) आणि विशेष संबंध (Special relationship) यातील फरक दर्शवा. 16
2. अ) विनिमय विपत्र म्हणजे काय? विनिमय विपत्राचे फायदे व तोटे विशद करा. 8
- ब) धनादेशाचे (cheque) प्रकार स्पष्ट करा. 8
- क) 'वचन चिठ्ठी' (promissory note) ची संकल्पना स्पष्ट करा. वचन चिठ्ठीचे फायदे व तोटे विशद करा. 16
3. अ) आरोग्य विष्याचे (Health Insurance) महत्व विशद करा. 8
- ब) वैयक्तिक अपघात विमा धोरणाचे वैशिष्ट्ये विशद करा. 8
- क) 'आरोग्य विमा योजना' परिभाषा सांगुन आरोग्य विष्याचे फायदे विशद करा. 16
4. अ) 'अधिकोष विमा संकल्पना' वर्णन करा. 8
- ब) 'बँक विमा' ची व्याप्ती विशद करा. 8
- क) 'अधिकोष' व 'विमा' यातील अंतर उदाहरणासहित स्पष्ट करा. 16
5. थोडक्यात उत्तरे लिहा.
- अ) खात्याचे प्रकार. 4
- ब) 'आहार्ता व आहार्ती' मधील फरक दर्शवा. 4
- क) दिर्घकालीन विमा योजनेची वैशिष्ट्ये. 4
- ड) विमा क्षेत्रामध्ये अधिकोष विष्याचे भविष्य. 4

BCom3663-Group-C : Banking and Insurance-Recent Trends in Banking and Insurance

Time : Three Hours

Max. Marks : 80

- सूचनाएँ :-**
1. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
 2. सभी प्रश्न को अंक समान हैं।

- | | | |
|----|---|----|
| 1. | अ) अधिकोष अधिनियम की परिभाषा बतलाइए। एवं उसके महत्व विशद किजिए। | 8 |
| | ब) अधिकोष ग्राहक के प्रकार विशद किजिए। | 8 |
| | अथवा | |
| क) | अधिकोष ग्राहक की संकल्पना स्पष्ट किजिए। एवं साधारण संबंध (General relationship) और विशेष संबंध (Special relationship) इनमें अंतर दर्शाइए। | 16 |
| 2. | अ) विनिमय पत्र (Bill of exchange) क्या है। विनिमय पत्र के लाभ विशद किजिए। | 8 |
| | ब) धनादेश (Cheque) के प्रकार स्पष्ट किजिए। | 8 |
| | अथवा | |
| क) | 'वचन चिठ्ठी' (Promissory note) की संकल्पना स्पष्ट किजिए। वचन चिठ्ठी के लाभ एवं हानी विशद किजिए। | 16 |
| 3. | अ) स्वास्थ बिमा का महत्व विशद किजिए। | 8 |
| | ब) वैयक्तिक अपघात बिमा योजनाकी विशेषताएं विशद किजिए। | 8 |
| | अथवा | |
| क) | स्वास्थ बिमा योजना की परिभाषा बतलाकर स्वास्थ बिमा के लाभ विशद किजिए। | 16 |
| 4. | अ) 'बँक बिमा की संकल्पना' वर्णन किजिए। | 8 |
| | ब) 'बँकिंग बिमा का कार्यक्षेत्र (Scope) विशद किजिए। | 8 |
| | अथवा | |
| क) | 'बँक' एवं 'बिमा' इनमें उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट किजिए। | 16 |
| 5. | संक्षेप में उत्तर लिखिए। | |
| अ) | बँक खातों के प्रकार। | 4 |
| ब) | 'आहर्ता' एवं 'आहार्ती' इनमें अंतर दर्शाइए। | 4 |
| क) | दिर्घकालीन बिमा योजना की विशेषताएं। | 4 |
| ड) | बिमा क्षेत्र में अधिकोष बिमा का भविष्य। | 4 |

munotes.in